

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 528]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 28, शक 1938

#### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

आदेश

अधि.क्र. 40- एफ-1-15-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नगरपालिका परिषदों में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :-

स.क्र.	जिले का नाम	क्र.	नगरपालिका परिषद् का नाम	क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जिला शहडोल	1	धनपुरी	1.	श्री उमेश पाण्डेय, श्री विद्यानंद पाण्डे, वार्ड नं. 23, चीफ हाउस, धनपुरी, थाना अमलाई, जिला शहडोल.
				2.	श्री घासीराम सूर्यवंशी (अजा) स्व. श्री भोंदल सूर्यवंशी, वार्ड नं. 10, उसलापुर, धनहपुरी, नं. 03, थाना अमलाई, जिला शहडोल.
				3.	श्रीमती जनक दुलारी केवट श्री मनहरदास केवट, वार्ड नं. 17, संग्राम सिंह, दफाई गणेश स्टेज के पास, धनपुरी, थाना धनपुरी, जिला शहडोल.
				4.	श्रीमती धीरू परिहार, श्री सतीश सिंह परिहार, वार्ड नं. 9, अमरामण्डी धनपुरी नं. 3, थाना अमलाई, जिला शहडोल.
		2	शहडोल	1.	श्री विनय चौहथा (अजा), श्री विनोद चौहथा, वार्ड नं. 33, शहडोल नगर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	जिला शहडोल	2	शहडोल	2.	श्रीमती शांति तिवारी, श्री एम. पी. तिवारी, वार्ड नं. 12, शहडोल.
				3.	श्री चेताराम यादव, श्री मुलचंद यादव, वार्ड नं. 30, शहडोल.
				4.	श्री त्रिभुवन गोस्वामी, श्री लखनपुरी गोस्वामी, वार्ड नं. 28, शहडोल.
2	जिला अनूपपुर	1	कोतमा	1.	श्री नंदलाल नारवानी, श्री आलमचंद नारवानी, वार्ड नं. दर्राटोला, कोतमा.
				2.	श्री संजय कुमार जैन, श्री केवलचंद जैन, वार्ड नं. 2, आहार भवन, कोतमा.
				3.	श्रीमती अभिलाषा गुप्ता, श्री चंद्रकांत गुप्ता, वार्ड नं. 3, आजाद चौक कोतमा.
				4.	श्री देवशरण सिंग (अजा), श्री चंद्रबली सिंग, वार्ड नं. 10, विकास नगर भालूमाड़ा रोड, कोतमा.
		2	बिजुरी	1.	श्री लवकुश शुक्ला, श्री हरिशंकर शुक्ला, वार्ड नं. 07, पडरीपानी बिजुरी, जिला अनूपपुर.
				2.	श्रीमती संतोषी सिंह, श्री बृजभान सिंह, वार्ड नं. 02, बिजुरी कालोनी, जिला अनूपपुर.
				3.	श्री रमाकांत सिंह, श्री दिनकर सिंह, वार्ड नं. 03, क्वा. 1039 एम., थाना बिजुरी, जिला अनूपपुर.
				4.	श्री काशी पाव, श्री लठरू पाव, वार्ड नं. 14, लोहसरा, थाना बिजुरी, जिला अनूपपुर.
		3	अनूपपुर	1.	श्री कृष्णानंद द्विवेदी स्व. श्री मंगल द्विवेदी, अनूपपुर बस्ती, वार्ड क्र. 18.
				2.	श्री मुरारीलाल गुप्ता, श्री विन्ध्याप्रसाद गुप्ता, वार्ड नं. 7, आदर्श मार्ग, अनूपपुर.
				3.	श्रीमती सीता कोल (अजा), श्री गणेश कोल आदर्श मार्ग, पोस्ट आफिस के पास, अनूपपुर.
				4.	श्रीमती मीना सोनी, श्री देवेन्द्र सोनी, वार्ड क्र. 13, अनूपपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गोपाल चंद्र डाड, उपसचिव.